

जो दूसरे अधिकारी हैं, ग्राम तौर से एक मामूली नागरिक को जो छूट है, वही छूट उन को भी है। वे पांच साल की अवधि में अपनी कार नहीं बेच सकते हैं, जब कि ग्राम नागरिक सात साल की अवधि में नहीं बेच सकते हैं। ग्राम नागरिक किसी भी कीमत की कार ला सकते हैं, जब कि मिशन में काम करने वाले अधिकारी एक हजार पाँच से ज्यादा की कार नहीं ला सकते हैं। अगर दोनों को मिला देंगे, तो कोई ज्यादा अन्तर नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर ज्यादा अन्तर नहीं है, तो मिला दीजिए।

SHRI SHANTILAL SHAH: Would it not be proper that the STC should take over the cars at cost minus depreciation for the years of use so that there will be no loss to the officer but the officers would not take any profit out of it? Would that be possible?

SHRI B. R. BHAGAT: As I have said, a large number of people belonging to these missions sell the cars to the STC if they want to sell them. After they sell the cars, they have also to buy new cars when they go abroad on further posting, for which they have to pay.

SHRI HEM BARUA: But they buy and sell at an exorbitant price.

Indian Embassy in Washington

*870. SHRI HEM BARUA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to an article entitled 'A bit of Central Secretariat' published in the Hindustan Times, dated the 28th February, 1968 which presents a report on the working of our Embassy in Washington; and

(b) whether Government have examined the report and if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) and (b). Government have issued instructions to all Indian Missions abroad in the matter of enforcing the highest standards of courtesy and efficiency.

So far as this particular article is concerned, Government have seen it. They are making enquiries from the Embassy.

SHRI HEM BARUA: This article, published in the Hindustan Times of 28 February and written by Shri Krishan Bhatia, has pinpointed the working of our embassy in Washington. It is the same indifference, same lethargy, same indolence, same casual and cavalier manner seen in the Secretariat here, and there are about 300 persons working on the staff of the Indian embassy in Washington. In the context of all this, may I know what particular steps our Government have taken to see that the functioning of our embassies abroad, particularly because they are supposed to project the image of India, is improved and they do not represent a bit of the Central Secretariat in Delhi in foreign countries?

SHRI B. R. BHAGAT: This is a continuous matter. In recruiting, training and in posting abroad, we give them sufficient training. Whether it is a matter of courtesy or efficiency, this is one of the primary things kept in view. The House has several times discussed this matter and it is our effort to see that there should be continuing effort in this direction so that our embassies abroad function efficiently and show all due courtesy that is expected of them.

SHRI HEM BARUA: The hon. Minister has said that it is the attempt or effort of Government to see that our embassies abroad function efficiently. Is it not a fact that our Ambassador in Algiers, Shri Mohammed Yunus, who had joined his post only three or four months ago, flew down

to Delhi, although he did not have any official duty here, to attend to and supervise the arrangements in connection with the Prime Minister's son's son's marriage? If it is so, when things were developing in West Asia, was this gentleman not responsible guilty of shirking his duties?

SHRI HANUMANTHAIYA: May I rise to a point of order?

MR. SPEAKER: No. The Prime Minister.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): This is absolutely false, because the date of the marriage had not even been fixed when he asked for his due leave. Actually he has gone on a Bharat Darshan tour on his own because he had been out of the country for some time.

SHRI HEM BARUA: But the fact remains, and it was reported in the papers, that Shri Mohamed Yunus came down and he was seen supervising the arrangements for the marriage at the Prime Minister's residence.

MR. SPEAKER: No please; that may be in some other connection.

श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा : क्या हमारे विदेशी दूतावासों के लोग जब हमारे देश के लोग वहां जाते हैं तो उन के मूवमेंट्स और स्टेटमेंट्स को दृष्टि में रख कर रिपोर्ट भेजते हैं? इसी सन्दर्भ में मैं यह पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका गवर्नमेंट ने मद्रास सी० एम० का आमन्त्रण किया है.....

MR. SPEAKER: That does not concern this question at all. Shri SC Jha.

श्री शिवचन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, इंडियन एम्बेसी वाशिंगटन में जो है वह बहुत ही निकम्मी है। मुझे वर्षों तक उसे देखने का मौका मिला है जब मैं बर्कले

का विद्यार्थी था। खैर, हो सकता है कि उस वक्त की परिस्थिति में वह निकम्मी रही हो, अब उस में कुछ परिवर्तन आया हो। तो इस संबंध में मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी अमेरिका में पढ़ते हैं उनको जो आर्थिक दिक्कतें आ जाती हैं तो उन की मदद करने के लिए आप के कल्चरल अटैची जो वाशिंगटन में हैं उन के पास कोई इस तरह की व्यवस्था है, कोई इस तरह का फंड है जिस से वह सहायता कर सकें ?

दूसरा मेरा सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस में दूसरे मुल्कों के विद्यार्थी गरमियों की छट्टियों में काम करते हैं। उन को खबर जाती है उन के दूतावासों से। लेकिन भारतीय विद्यार्थियों को खबर तक नहीं जाती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले दो सालों में कितने भारतीय विद्यार्थी समर के टाइम में यूनाइटेड नेशंस में काम किए हैं ?

MR. SPEAKER: I do not think he can answer it...

श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा : अध्यक्ष महोदय, जब इन के प्रश्न का जवाब मिला है तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं आ सकता ?

MR. SPEAKER: I was saying that the Minister could not answer it. Meanwhile the hon. lady member gets up and says something. She will have to sit down. She cannot be indisplined. She does not even hear what I say, but thinks it is her privilege to get up and say anything in this House. This cannot happen. I was saying that the Minister cannot say how many students are there. Meanwhile, she jumps up. It cannot happen like this.

I do not think the Minister can answer the question.

श्री ब० रा० भगत : विद्यार्थियों को चित्त सुविधा के लिए हमारा देश और हमारे दूतावास समय समय पर जो उन की मदद कर सकते हैं वह करते हैं।

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI: To ensure that the image of India is properly projected in the working of our embassies in foreign countries, I would request the Prime Minister to enlighten us as to what special steps Government are taking in this direction?

SHRI B. R. BHAGAT: There is a critical scrutiny of the functioning of our embassies. We have an inspectorate which goes abroad from time to time to see things on the spot. We also get reports from them. Then criticism and comment in the press and Parliament are also taken note of and attempt made to better the functioning of our embassies.

SHRI LOBO PRABHU: In the context of the continually increasing expenditure of the External Affairs Ministry—I may mention that this year the budget provides for an increase of Rs. 1.45 crores, though devaluation should have reduced the expenditure by Rs. 5.5 crores—has the Ministry considered the possibility of consolidating the work of other Ministries abroad, e.g. the Education Ministry, the Commerce Ministry, the STC and Supply Ministry which have all separate representatives doing the same work which could be done at one place by the embassies under the heads of missions?

SHRI B. R. BHAGAT: May I submit most humbly that devaluation increase the rupee cost and not reduces it?

SHRI LOBO PRABHU: I meant devaluation of the British £?

SHRI B. R. BHAGAT: A strict scrutiny is made of the Ministry's budget by which wherever we have gone for expansion or opening of new embassies, we try to keep the expenditure to the minimum possible.

SHRI LOBO PRABHU: He has not answered my question concerning consolidation. Are they considering consolidation or not?

SHRI B. R. BHAGAT: That aspect is also kept in view.

श्री नाथू राम अहिरवार : मैं जानना चाहता हूँ कि जो भारतीय विद्यार्थी विदेशों में रहते हैं क्या अपने यहां के दूतावासों में ऐसा प्रबन्ध है कि अपने देश का साहित्य उनको मिले और अपने यहां की राजनीतिक परिस्थितियों से उनको अवगत कराते रहें ?

श्री ब० रा० भगत : जो भारतीय वहाँ रहते हैं उनका सम्बन्ध वहाँ के दूतावासों से भ्रवण्य रहता है और जो कुछ भी सुविधा नियम और कानून के मातहत दी जा सकती है वह दी जाती है।

SHRI S. KANDAPPAN: In answer to the main question, the Minister said that with regard to the particular irregularities mentioned in the article in question, they are enquiring from the embassy. This is a very strange answer to give. Do Government hope to get any kind of reasonable reply from the embassy concerned because they will only try to protect themselves? When such kind of irregularities are brought to their notice, not only in this particular case but generally in regard to any embassy or mission abroad, are Government prepared to institute some kind of inquiry over and above, not within the embassy concerned but without their knowledge by somebody from outside, who will make his report to Government?

SHRI B. R. BHAGAT: Certain things like the building not being good looking, there being financial stringency and various other matters may have affected the staff. We have asked for a detailed report. They have give some report. We are looking into these matters. I can assure the House that wherever corrective action is necessary, we will take it.

SHRI S. KANDAPPAN: My question is entirely different.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: We have inspectors also and they tour these places. But some of the difficulties which the writer has pointed out in his article are genuine difficulties. For instance, it is said that they wanted sanction for some funds which has not been given and so they are unable to do the work. Therefore, we must know both sides. But I do not think that so much importance should be given to what a newspaper prints about a particular embassy because quite often these are subjective comments.

SHRI BUTA SINGH: This question has come up so many times before the Public Accounts Committee and the Committee had found that the functioning of the India Supply Mission had not been proper. Is there any machinery in his ministry which attempts to dispel that image from the public mind?

SHRI B. R. BHAGAT: So far as the PAC reports are concerned, we go into them and take action. The Committee recommended a cut in the staff of the India Supply Mission and we are taking it up with the Ministry Works, Housing and Supply and also the Finance Ministry. All these matters are under consideration.

श्री राम चरण : आपके यहाँ इंडियन फौरिन सर्विस कान्ट्रिब्यूट रूल्स हैं, अगर माइन्सटली प्राबजर्व किया जाय, तो एक भी आदमी उन रूल्स को फौलो नहीं करता। इस लिये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मिनिस्टरी आफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोई सर्वे या कमीशन

बैठाये, तो मेरे ख्याल से इस तरह की शिकायतें नहीं आयेंगी। जैसे इनक मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल अफेयर्स के श्री ग्राजिम हुसैन के बारे में एक शिकायत आई थी कि उन्होंने 80 हजार रुपये की कार बेची है
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो बहुत रोख पहले हो चुकी है।

श्री रवि राव : अमरीका में भारत के राजदूत श्री बी० के० नेहरू के प्रवक्ताश प्राप्त करने के बाद जो ये राजदूत गये हैं, क्या उनको—अमरीका में वियतनाम को लेकर जो जन-ग्रान्दोलन हो रहा है, गैलब्रेथ साहब और दूसरे जन लोग ग्रान्दोलन कर रहे हैं—उस के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन दी गई हैं? अगर दी गई है तो उसका ब्योरा क्या है?

श्री बी० रा० भगत : नीति के बारे में उनको खुलासा है और हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। लेकिन वहाँ कोई आदमी क्या कर रहा है—उसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती है।

SHRI K. NARAYANA RAO: The IFS is quite a new service; it started with independence. But the mode of recruitment and the nature of examinations are the same for the I.A.S., that is, the civil service. The brief special training that is given is inadequate. In view of these deficiencies, will the Minister be prepared to consider introducing new orientation courses and also include such subjects at the university level?

SHRI B. R. BHAGAT: If the hon. Member has any specific proposal for new orientation course, we shall look into it. But I can assure the House that before they are posted out or their job; a very rigorous training is given, including a tour of the country for several months and visit to some districts so that they know the country as it is. For brief intervals they also, come back and see the country and keep themselves abreast of the events happening here.

श्री गुरुर झली खा : क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि हिन्दुस्तान के लोग जो बाहर के मुल्कों में बसते हैं, हमारे दूतावास के लोग उनके साथ किस जुबान में खतोकिताबत करते हैं ? अगर अपनी जुबान—हिन्दुस्तानी में नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते ? क्या सरकार इसके मुताल्लिक कोई आदेश दूतावासों को देगी कि वे अपनी जुबान में उन लोगों के साथ खतोकिताबत किया करें ?

श्री बली राम भगत : अभी तो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चलती है ।

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : हमारे दूतावासों में काम करने वाले आदमी उन मुल्कों में भारतवर्ष का स्वरूप उपस्थित करते हैं तथा वहाँ के लोगों के साथ भारतवर्ष की संस्कृति, इतिहास इन सब विषयों पर चर्चा चलती है । क्या हमारी सरकार ने ऐसा कोई ग्रन्थ तैयार किया है, जिसमें भारतवर्ष के सभी पहलुओं का चित्र उपस्थित हो तथा कार्यकर्ताओं के उन देशों में जाने से पूर्व उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो ?

श्री बली राम भगत : ऐसी कोई पुस्तक तैयार नहीं हो सकती, जिसमें भारतवर्ष का सम्पूर्ण चित्र उपस्थित हो जाय (व्यवधान)

श्री हुकम चन्द कछवाय : आपने प्रयत्न ही नहीं किया ।

श्री बली राम भगत : भारतवर्ष का चित्र तो हम यहाँ उपस्थित करते हैं । यह चित्र हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से बदलता है, बनता है, बिगड़ता है । लेकिन जब ये लोग जाते हैं तो भारतवर्ष का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की जो अभी की

हालत है, इन सब के बारे में स्पेशल-लैक्चर कोर्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है ।

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलत जवाब दिया है—क्या भारतवर्ष की संस्कृति, सत्य-अहिंसा बदलने वाली चीज है ? वह कैसे बदलेगी ?

श्री बली राम भगत : सत्य का रूप तो शाश्वत है, वह बदलता नहीं है ।

श्री सीताराम केसरी : हमारे जो छात्र विदेशों में जाते हैं, आपके दूतावासों से जो मार्गदर्शन उन्हें मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है । इस बात की शिकायत है कि आपके दूतावासों के द्वारा उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिला है । क्या आपके पास ऐसी शिकायत आई है ?

श्री बली राम भगत : कभी कभी ऐसी शिकायतें आती हैं तो हम उनकी छानबीन करते हैं । यह आदेश जरूर देते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी वहाँ हैं, दूतावास उनसे सम्बन्ध स्थापित रखें ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी प्रधान मंत्री महोदया ने कहा कि जो आर्टिकल हैं वे अधिकांश सब्जेक्टिव होते हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी वहाँ गये थे, जो आर्टिकल छपा है, वह कम छपा है, उससे ज्यादा वहाँ मिसमैनेजमेंट और गड़बड़ है । आपके जरिये मैं प्रधान मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जब दीन दयाल जी की हत्या हुई, आपका जो वीकली पेपर निकलता है, उसमें उसका कोई समाचार नहीं दिया गया । जब वहाँ के भारतीयों ने दूसरे समाचारपत्रों में पढ़ा, तब हमारी एम्बेसी को लिख कर पूछा कि यह समाचार अपने पत्र में क्यों नहीं छपा । इस प्रकार का एटीच्यूड हमारे वहाँ के लोगों का है । यह सब चीजें आज की नहीं हैं, बहुत दिनों से इसी तरह से चली आ रही हैं ।

में प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या पार्लियामेंट के दो-तीन मेम्बरों को भेज कर—वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ क्या इमेज हमारे देश का बनाया जा रहा है—इस के बारे में जांच करायेगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ये तो बिलकुल दो अलग-अलग बातें हैं—समाचारपत्र में वे पूरी खबर दें या न दें, लेकिन जो कृष्ण भाटिया ने लिखा है कि वहाँ सफाई नहीं है, समय पर लोग पहुंचते नहीं हैं—वह अलग बात है।

India's Borders

871. SHRI RABI RAY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that joint teams of representatives of the Ministries of Defence and External Affairs have been entrusted with a project which aims at placing beyond any doubt India's exact borders; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) and (b). All matters relating to our borders are subjected to constant scrutiny in the appropriate Ministries and Departments of the Government of India. And, where necessary, interministerial meetings take place. Hon'ble Members will appreciate that it is not in the public interest to disclose the details of such meetings and discussions.

श्री रवि राय : यह एक अनोखी चीज है। आजादी के पिछले 21 साल के बाद हम ही एक अग्रगण्य देश हैं जिसकी लाखों बर्ग मील भूमि विदेशियों ने हड़प ली—दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ऐसा हुआ हो। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सीमा के बारे में जो बहस इस सदन में डा० लोहिया साहब

ने उठाई थी और एजुकेशन मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि इस तरह का सर्वे हो रहा है, और सर्वे में बहुत कन्ट्राडिक्शन था—हम जिस दिन से आजाद हुए—15 अगस्त, 1947—उस दिन हिन्दुस्तान को जो जमीन मिली थी, जो सीमा हमारी निर्धारित हुई थी, उस सीमा को मद्देनजर रखते हुए हमारी कितनी भूमि विदेशियों ने हड़प ली—यह प्रधान मंत्री हम को बतायें ?

श्री ब० रा० भगत : इन बातों पर तो कई बार चर्चा हो चुकी है, तफसील दी जा चुकी है और सफाई भी की जा चुकी है। माननीय सदस्य ने एक कमेटी मीटिंग में सवाल पूछा था, अब अगर उन सारी बातों को उठाना चाहते हैं तो इसके लिये अलग अलग दिया जाय, तभी बताया जा सकता है।

श्री रवि राय : मेरा सवाल यह था कि जिस दिन हम आजाद हुये उस दिन हमारी जो सीमा निर्धारित हो चुकी थी उसमें से कितनी हमारी जमीन विदेशों ने हड़प ली है ?

MR SPEAKER: I do not know whether he can answer it as a supplementary. It is a very delicate question pertaining to the territory of India. Suppose off hand he says so many thousands of square miles have been taken away, it will be a dangerous thing. Dr. Fernandes also brought to our notice some maps. This is a very serious matter. This is not the way to deal with our territory because off-hand the minister cannot say something. About the maps, I have already said that we will have a discussion.

AN HON. MEMBER: There is a half-hour discussion today.

MR. SPEAKER: After this also, let us see. I do not think the minister will be able to answer that so many will be able to answer that so many He can put his next question.